

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1981/पाँच 13, 1902
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1981/PAUSA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

राजपत्र

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1981

का.खा.6(अ) —भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 1 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 1495 पर प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और मत्तई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. अ. 695 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 1978 में, "अयोध्या चीनी मिल लिमिटेड" के स्थान पर "अयोध्या चीनी मिल" पढ़ें ।

[फा. सं. 10/2/80-पुन.पुन.यू.]

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

CORRIGENDA

New Delhi, the 3rd January, 1981

S.O. 6(E).—In the order of the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No S.O. 695(E), dated the 1st December, 1978, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) Extraordinary, dated the 1st December, 1978, at page 1495 and 1496, for "the Ajudhia Sugar Mills Ltd.", read "the Ajudhia Sugar Mills".

[F. No. 10/2/80 NSU]

का.आ.7(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 28 मार्च, 1980 के पृष्ठ 525 पर प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 218(अ), तारीख 28 मार्च, 1980 में "अयोध्या चीनी मिल लिमिटेड" के स्थान पर "अयोध्या चीनी मिल" पढ़ें।

[का. सं. 10/2, 80-एन.एम.यू.]

सी.एन. राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी)

S.O. 7(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food), No S.O. 218(E), dated the 28th March, 1980, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, dated the 28th March, 1980, at page 525 for "the Ajudhia Sugar Mills Limited", read "the Ajudhia Sugar Mills".

[F No 10/2/80-NSU]

C N. RAGHAVAN, Jt. Secy (Sugar)